



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 166-2018/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, SEPTEMBER 28, 2018 (ASVINA 6, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 सितंबर 2018

संख्या 20/65/2018-6 क-1.— हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2016 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित क्षेत्रों को अपूर्ण नागरिक पूर्ण सुखसुविधाएं तथा अवसंरचना क्षेत्रों के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची

क्रम संख्या	कॉलोनी का नाम	खसरा संख्या/किला संख्या	क्षेत्र (एकड़ों में)	निगम का नाम	जिले का नाम
1.	किंग विहार-1 कॉलोनी	हदबस्त नं0 60 (धुलकोट) 28 / / (मिन 19, 22, 23) 35 / / (मिन 2, 3, 8, 9)	3.29	नगरनिगम, अम्बाला	अम्बाला
2.	वीटा विहार	हदबस्त नं0 60 (धुलकोट) 34 / / (मिन 20, 21) 35 / / (मिन 16, 24, 25) 38 / / 5, (मिन 4, 6, 7) 39 / / (मिन 1, 10, 11, 20)	7.59		
3.	सूर्या कॉलोनी	हदबस्त नं0 31 (काकरू) 24 / / (मिन 2, 3, 8, 9)	2.58		
4.	एक्सटेंशन कृष्णा कॉलोनी	हदबस्त नं0 51 (पट्टी कलालन) 12 / / (मिन 4, 6, 7, 15)	1.09		

क्रम संख्या	कॉलोनी का नाम	खसरा संख्या/किला संख्या	क्षेत्र (एकड़ों में)	निगम का नाम	जिले का नाम
5.	अर्पित एनकलेव	हदबस्त नं0 114 (सोंदा) 47 / (मिन 21) 48 / (मिन 25) 54 / (मिन 5, 6) 55 / (मिन 1)	1.96		
6.	प्रीत नगर	हदबस्त नं0 113 (जंदली) 55 / 7, 8 (मिन 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17) 56 / / (मिन 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12)	8.06		
7.	जे.जे. कॉलोनी	हदबस्त नं0 113 (जंदली) 31 / / (मिन 21) 32 / / (मिन 23, 24, 25) 40 / / (मिन 3, 4, 5, 6, 7, 8) 41 / / (मिन 1, 2, 9, 10)	3.89		
8.	नरेश विहार-1	हदबस्त नं0 38 (पट्टी जटान) 55 / / (मिन 21, 22, 23) 58 (मिन 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17)	4.82		
9.	नरेश विहार-II	हदबस्त नं0 38 (पट्टी जटान) 58 / / (मिन 16, 25) 59 (9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 मिन) 70 (मिन 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10) 71 / / (मिन 5)	10.96		
10.	एक्सटेंशन उत्तम नगर	हदबस्त नं0 58 (पट्टी मेहर) 12 / / (22, 23) (मिन 13, 18, 19, 20, 21, 24, 17) 15 / / (मिन 1, 2, 3, 4)	6.97		
11.	एक्सटेंशन मनमोहन नगर	हदबस्त नं0 38 (पट्टी जटान) 50 / / (मिन 10, 11, 12, 19, 20)	2.08		
12.	रंजीत नगर	हदबस्त नं0 56 (पट्टी मेहर) 16 / / (मिन 6, 15,, 16, 17, 24, 25) 17 / / 7, 8, 14 (मिन 2, 3, 4, 9)	15.43		
13.	मंदोर इन्डस्ट्रीयल एरिया	हदबस्त नं0 60 (धुलकोट) 18 / / (मिन 3, 4, 5, 6, 7, 8) 17 / / 10 (मिन 1, 2, 9, 10, 11, 12)	18.48		
14.	सीना कॉलोनी	हदबस्त नं0 113 (जांदली) 4 / / (मिन 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20)	3.97		
15.	मंदोर इन्डस्ट्रीयल एरिया-II	हदबस्त नं0 60 (धुलकोट) 18 / / (मिन 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 24 / / (मिन 1)	5.49		

क्रम संख्या	कॉलोनी का नाम	खसरा संख्या/किला संख्या	क्षेत्र (एकड़ों में)	निगम का नाम	जिले का नाम
16.	आनन्द विहार	हदबस्त नं0 104 (ननहेरा) 7//20 (मिन 11, 12, 19, 21, 22) 8//25 (मिन 24) 15// (मिन 4, 5, 6) 16// (1, 10) मिन	6.89		
17.	मिलाप नगर	हदबस्त नं0 104 (ननहेरा) 8//8, 9, 10, 13, (मिन 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24)	12.11		
18.	पालम विहार ई	हदबस्त नं0 102 (नागल) 18//25, (मिन 14, 15, 16, 17, 24) 19// (मिन 20, 21) 25// (मिन 1, 10) 26//5(मिन 4, 6., 7, 14, 15)	6.73		
19.	दीप नगर	हदबस्त नं0 102 (नागल) 14// (मिन 20, 21, 22) 15//25(मिन 15, 16) 17//5(मिन 6) 18//1(मिन 2, 9, 10)	7.63		
20.	गांधी नगर	हदबस्त नं0 103 (करधान) 2//24 (मिन 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25) 4//10, 11, 12, 19, 20, 21, (मिन 1, 2, 8, 9, 13, 17, 22, 23) 5//2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15 (मिन 1, 5, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 25) 8// (मिन 5) 9// (मिन 1, 2) अर्बन नं0 26, 27	29.96		
21.	शंकर पार्क	हदबस्त नं0 102 (नागल) 14//23 (17, 18, 19, 20, 21, 22, 24) मिन 18// (2, 3, 4, 7) मिन	5.32		
22.	कृष्णा नगर बी	हदबस्त नं0 63 (बबयल) 18//22(मिन 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25) 21//1, 2, 3(मिन 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20)	12.30		
23.	लक्ष्मी नगर	हदबस्त नं0 103 8//22(मिन 19, 20, 21, 23) 16// (मिन 1, 2, 3)	3.94		
24.	अशोक विहार	हदबस्त नं0 103 (करधान) 9//21(मिन 19, 20, 22, 23) 15//1, 2(मिन 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11) अर्बन नं0 33	8.35		

क्रम संख्या	कॉलोनी का नाम	खसरा संख्या/किला संख्या	क्षेत्र (एकड़ों में)	निगम का नाम	जिले का नाम
25.	संत नगर सतसंग नगर	हदबस्त नं० 103 (करधान) 9//12, 13, 14, 15(मिन 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25) 10// (11 मिन) 15// (मिन 4)	12.29		
26.	राजेन्द्र नगर एनकलेव	5018/1, 5019/1, 5022/1, 5023, 5024, 5227, 5228	4.51	नगरनिगम, हिसार	हिसार
27.	विद्या नगर विश्वविद्यालय विहार कॉलोनी, अग्रवाल कॉलोनी एक्सटेंशन	140//11 मिन, 20 मिन, 21 मिन 141//17, 18, 19, 20, 21, 22, 1 मिन, 2 मिन, 7 मिन, 8 मिन, 9 मिन, 10 मिन, 11 मिन, 12 मिन, 13 मिन, 14 मिन, 15 मिन, 16 मिन, 23 मिन, 23 मिन, 24 मिन, 25 मिन, 142//16 मिन, 25 मिन	16.01		
28.	सत्या नगर	113//30, 26, 114//26 मिन, 27, 140//1, 2, 10 मिन, 141//5 मिन, 4 मिन, 6 मिन, 7 मिन	6.91		
29.	बाबा हरसुखपुरी कॉलोनी	96//22 मिन, 23 मिन, 24 मिन, 25 मिन, 114//10 मिन, 11 मिन 115//2 मिन, 3 मिन, 4, 5, 6, 7 मिन, 8 मिन, 9 मिन, 14 मिन, 15 मिन	8.81		
30.	शहीद भगत सिंह कॉलोनी	1150//10 मिन, 11 मिन 1151//6 मिन, 7, 8, 9, 10 मिन, 11 मिन, 12 मिन, 13, मिन, 14 मिन, 15 मिन	7.43		
31.	मास्टर कॉलोनी	72//3 मिन , 4 मिन , 5 मिन , 6, 7 , 8 मिन, 15 73//1 मिन, 10, 11	6.97		
32.	हनुमान कॉलोनी	103//3 मिन, 4, 5, 6, 7 मिन, 8 मिन, 14 मिन, 15 मिन 104//6 मिन, 7 मिन, 11 मिन, 12, 13, 14, 15 मिन, 16, 17, 18 मिन, 24, 25, 105//20 मिन, 21 मिन 114//1, 9 मिन, 10, 11, 12 मिन 115//4 मिन, 5, 6 मिन, 7 मिन	20.73		
33.	चौधरी कॉलोनी	71//15 मिन, 16 मिन 72//11 मिन, 20 मिन, 21 मिन 86//1 मिन	3.46		
34.	माडल टाउन एक्सटेंशन-II	4944, 4945, 4947, 4948, 4949, 4970, 4971, 4972, 4972, 4973, 4974, 4975, 4976, 4977, 4978	26.91		
35.	महावीर कॉलोनी एक्सटेंशन-I	6525, 6530, 6531, 6539, 6540, 6541, 6543, 6609, 6612, 6613, 6614, 6618, 6619, 6620, 6621, 6622, 6623, 6628, 6681, 6682, 6684, 6687, 6688, 6694, 6695, 6699, 6697, 6627	19.39		

क्रम संख्या	कॉलोनी का नाम	खसरा संख्या/किला संख्या	क्षेत्र (एकड़ों में)	निगम का नाम	जिले का नाम
36.	महाबीर कॉलोनी एक्सटेंशन-II	6372, 6373, 6522, 6523, 6524, 6525, 6487, 6488, 6489, 6490, 6375, 6380, 6381	14.35		
37.	देव वाटिका	7120, 7135, 7158, 7159, 7160, 7161, 7165, 7166, 7181, 7185, 7187, 7169	5.89		
38.	कौशिक नगर	93//6 मिन, 14 मिन, 15 मिन, 16 मिन, 17 मिन 94//10 मिन, 11 मिन, 12 मिन, 13 मिन, 14 मिन, 16 मिन, 17 मिन, 18 मिन, 19 मिन, 20, 21, 22, 23, 24, 25 मिन 107//1, 2, 3, 4 मिन, 5 मिन	17.20		
39.	कृष्णा नगर एक्सटेंशन कॉलोनी	3838, 3839, 3840, 3841, 3847, 3849, 3850, 3851, 3852, 3855, 3856, 4114, 4115, 4116, 4117, 4297, 4300, 4301, 4303	14.26		
40.	पृथ्वी विहार	7677 मिन, 7679मिन, 7685मिन, 7672मिन, 7670, 7668मिन, 767मिन, 7669, 7671मिन, 7684, 7680, 7681, 7682मिन, 7683, 7719, 7718मिन, 7720मिन, 7717मिन, 7710मिन, 7709मिन, 7721मिन, 7722मिन, 7723, 7724मिन, 7763मिन, 7754मिन, 7755मिन, 7735मिन, 7736मिन, 7753मिन, 7752मिन, 7762मिन, 7764मिन, 7761मिन, 7765, 7766मिन, 7760/1मिन, 7602, 7746मिन, 7757मिन	26.67	नगर निगम, करनाल	करनाल
41.	कनिका विहार कॉलोनी	8400, 8401, 8402मिन, 8403मिन, 8404मिन, 8405, 8406, 8408, 8409, 8410, 8411, 8412, 8413, 8393मिन, 8394, 8395, 8397, 8398, 8427, 8416मिन, 8425, 10031/8426, 10032/8426, 10035/8430मिन, 10033/8426, 10036/8428/8430, 10034/8430मिन, 8428मिन,	32.31		
42.	विकास कॉलोनी	8325मिन, 2328/8226/2, 8223, 8221, 8224, 8220, 8219, 8218मिन, 8232मिन, 8231मिन, 8230मिन, 8228, 8229मिन, 8119मिन, 8197मिन, 8263मिन, 8217/1, 8217/2, 8216मिन, 8215मिन, 8216मिन, 8210मिन, 8212मिन, 8213, 8204, 8195मिन, 8194मिन, 8206मिन, 8205मिन, 8042मिन, 8193, 8031मिन, 8176मिन, 13101/8175, 13102/8175, 13100/8174मिन, 13099/8174मिन, 13098/8174, 8053मिन, 8054मिन, 8055मिन	29.04		
43.	मोती नगर एक्सटेंशन	8943मिन, 8941मिन, 8945मिन, 8946मिन	2.96		
44.	भाट कॉलोनी	4559मिन, 4558, 4560मिन, 4562, 4563, 4555मिन, 4564, 4554मिन, 4556, 4557	4.28		

क्रम संख्या	कॉलोनी का नाम	खसरा संख्या/किला संख्या	क्षेत्र (एकड़ों में)	निगम का नाम	जिले का नाम
45.	श्री राम कॉलोनी	4460मिन, 4459मिन, 4457मिन 4407मिन, 4408मिन, 4419 मिन	2.322		
46.	विकास नगर कॉलोनी	53 // 1/1,), 2/1/1, 2/1/2, 2/2, 3, 4, 5, 26, 6मिन, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 15मिन, 14, 16, 17, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 24, 25मिन, 26, 50 // 11मिन, 12मिन, 13/1मिन, 13/2मिन, 14/1मिन, 14/2मिन, 18/3मिन, 19, 20, 21, 22, 23मिन, 7/1/1मिन 7/1/2, 8/3/2, 8/3/1, 51 // 13/2मिन, 14/2मिन, 15मिन, 16, 17, 18, 23, 29, 28, 23, 22/2मिन, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2 52 // 2/1मिन, 2/2मिन, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1/1, 5/1/2, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2, 9मिन, 12मिन, 13मिन, 14, 15, 26, 16, 17/1मिन, 17/2मिन, 25/1मिन, 25/2मिन, 24/2मिन Revenue Estate of village Phoosgarh 7428मिन, 7424मिन, 7427मिन, 7426मिन, 7425मिन, 7423मिन,	54.808		
47.	गुरु नानक पुरा – II	794मिन, 795मिन, 796मिन, 797मिन	2.12		
48.	गुरु नानक पुरा – III	786 मिन, 790 मिन, 792 मिन	3.478		
49.	कृष्णा कॉलोनी	7997 मिन, 7989 मिन, 7990 मिन,	4.779		
50.	राधा कृष्ण कॉलोनी	79 // 16 मिन, 25 मिन, 80 // 20 मिन, 21 मिन, 87 // 1 मिन, 10 राजस्व सम्पदा उचाना	1.28	नगर निगम, पंचकुला	पंचकुला
51.	लोहगढ कॉलोनी	राजस्व सम्पदा लोहगढ: 55,289मिन, 290, 318मिन, 321मिन, 322मिन, 334, 335, 336, 337, 351, 352, 353, 354, 355मिन, 356, 357, 358, 359, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 378मिन, 399, 401मिन, 402, 413मिन, 414मिन, 451मिन, 452मिन, 453, 454, 456, 457, 458मिन, 513/2मिन	11.91		

क्रम संख्या	कॉलोनी का नाम	खसरा संख्या/किला संख्या	क्षेत्र (एकड़ों में)	निगम का नाम	जिले का नाम
52.	मानकपुर नानक चन्द	राजस्व सम्पदा मानकपुर ठाकुरदास: 203मिन, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228मिन, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237मिन, 214 / 1 राजस्व सम्पदा मानकपुर नानकचन्द: 291मिन, 295, 296मिन, 297, 298, 299, 311मिन, 312मिन, 313, 314, 316मिन, 317,	9.49		
53.	कृष्णा एनकलेव	राजस्व सम्पदा बिटना: 6, 7, 8, 9मिन, 13मिन, 14मिन, 15, 16मिन, 23मिन, 24, 25, 26, 27, 28मिन, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48मिन,	21.47		
54.	ईशर नगर कॉलोनी	राजस्व सम्पदा ईसलामनगर: 7मिन, 8मिन, 9मिन, 10मिन, 11मिन, 12मिन, 14मिन, राजस्व सम्पदा भोगपुर: 170 / 92मिन	7.12		
55.	ईसलाम नगर कॉलोनी पार्ट-I	राजस्व सम्पदा ईसलामनगर: 46 मिन, 47 मिन, 49 मिन	3.22		
56.	अजीत कॉलोनी एक्सटेंशन-1 नं0 मुसतिल 34, 46 मिन	34 / / (24 मिन, 25 मिन), 46 / / (4 मिन, 5 मिन, 7 मिन)	1.3	नगर निगम, रोहतक	रोहतक
57.	अजीत कॉलोनी एक्सटेंशन-2 मुसतिल नं0 46 मिन वगैरा	46 / / (20 मिन, 21 मिन), 47 / / (25 मिन)	0.6		
58.	अमृत कॉलोनी एक्सटेंशन मुसतिल नं0 19 मिन	19 / / 18 मिन, 19 मिन, 22, 23 मिन	2.4		
59.	अस्तल बोहर एक्सटेंशन-3 मुसतिल नं0 318 मिन	318 / / (9 मिन, 10 मिन, 12 मिन, 19 मिन)	1.4		
60.	आजाद गढ एक्सटेंशन मुसतिल नं0 50 मिन	50 / / 8मिन, 13मिन, 14मिन, 18मिन	1.35		
61.	बलियाना आउटर-1 मुसतिल नं0 62 मिन	62 / / (8, 13, 14, 16, 17, 18 मिन)	3.29		
62.	बलियाना आउटर-2 मुसतिल नं0 76 मिन	76 / / (13, 14, 17, 18 मिन)	1.15		
63.	बलियाना आउटर-3, मुसतिल नं0 106 मिन	106 / / (8 मिन, 13 मिन)	0.71		
64.	बरसी नगर एक्सटेंशन 1, जीन्द चौक अर्बन नं0 4375, 4376 वगैरा	अर्बन नं0 (4375 मिन, 4376 मिन, 4408 मिन)	1.9		

क्रम संख्या	कॉलोनी का नाम	खसरा संख्या/किला संख्या	क्षेत्र (एकड़ों में)	निगम का नाम	जिले का नाम
65.	बरसी नगर एक्सटेंशन 2, जीन्द चौक अर्बन नं0 1204, 1205 मिन वगैरा	अर्बन नं0(1204 मिन, 1205 मिन, 1335 मिन, 1337 मिन)	1.1		
66.	बरसी नगर एक्सटेंशन 3, जीन्द चौक अर्बन नं0 3598, 3599 मिन वगैरा	अर्बन नं0(3598 मिन, 3599 मिन, 3606 मिन, 3607 मिन)	0.5		
67.	बरसी नगर एक्सटेंशन 4, जीन्द चौक अर्बन नं0 1331, 1334 मिन वगैरा	अर्बन नं0(1331 मिन, 1334 मिन, 3449 मिन, 3450 मिन, 3451 मिन, 3452 मिन, 3453 मिन, 3522 मिन)	0.94		
68.	बसंत विहार एक्सटेंशन 1, मुसतिल नं0 72 मिन सोनीपत रोड	72// (15 मिन, 16 मिन, 24 मिन, 25 मिन)	1.8		
69.	बस्ती कुटाना एक्सटेंशन 1, मुसतिल नं0 39 मिन	39//17(4, 6, 7, 14 मिन)	3.04		
70.	बस्ती कुटाना एक्सटेंशन 2, मुसतिल नं0 38 तथा 39 मिन	38// (1, 10, 11, 20 मिन), 39// (6, 15, 16 मिन)	3.8		
71.	बोहर आउटर पार्ट 4, मुसतिल नं0 179 मिन	179//11,(10, 18, 19, 20 मिन)	3.32		
72.	बोहर आउटर पार्ट 5, मुसतिल नं0 159, 178 मिन वगैरा	159// (9, 12, 19, 22 मिन), 178// (2 मिन)	1.92		
73.	बोहर आउटर पार्ट 6, मुसतिल नं0 159, 160 मिन वगैरा	159// (10मिन), 160// (6, 7 मिन./)	2.9		
74.	फ्रैंडस कॉलोनी एक्सटेंशन 1, मुसतिल नं0 280, 281 मिन वगैरा	280// (15, 16, 17, 24 मिन), 281// (19, 20, 22 मिन), 302// (2, 9, 12, 19 मिन), 303// (4 मिन)	4.9		
75.	गरही बोहर आउटर पार्ट 2, मुसतिल नं0 319 मिन	319//8 मिन, 9, 10 मिन, 12 मिन, 19 मिन	3		
76.	हरकी देवी कॉलोनी एक्सटेंशन, मुसतिल नं0 132, 134 मिन वगैरा	132// (21 मिन), 134// (5, 6, 15 मिन), 135// (1, 10 मिन)	2.73		
77.	इन्द्र नगर-I, मुसतिल नं0 70 मिन तथा 71 मिन	सुनारिया कलां 70// 9 मिन, 10 मिन, 11 मिन, 71// (6 मिन, 15 मिन)	1.47		
78.	जसबीर कॉलोनी मुसतिल नं0 71, 72 मिन वगैरा	71//2 मिन, 3, 8, 9 मिन, 12 मिन, 13, 14, 15 मिन, 17 मिन, 16 मिन, 17 मिन, 18, 19 मिन, 20 मिन, 21 मिन, 22 मिन, 25, 72// 20, 21, 77//1 मिन, 3, 8, 9 मिन, 10 मिन, 11 मिन, 18 मिन, 19 मिन, 20 मिन, 21 मिन, 22 मिन, 23 मिन), 78// (1 मिन, 2 मिन, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मिन, 9 मिन, 10 मिन, 13 मिन, 14 मिन, 15 मिन, 16 मिन, 17 मिन, 25 मिन)	29		

क्रम संख्या	कॉलोनी का नाम	खसरा संख्या/किला संख्या	क्षेत्र (एकड़ों में)	निगम का नाम	जिले का नाम
79.	कनहेली आउटर पार्ट 1 मुसतिल नं0 34, 35 मिन वगैरा	34// (12, 19, 20, 21 मिन), 35// (16, 25 मिन)	2.85		
80.	कनहेली आउटर पार्ट 3, मुसतिल नं0 53 मिन वगैरा	53// (15 मिन)	1.06		
81.	कबीर कॉलोनी एक्सटेंशन 1, मुसतिल नं0 60 मिन	60// 7 मिन, 13 मिन, 14 मिन	1.17		
82.	कबीर कॉलोनी एक्सटेंशन 2, मुसतिल नं0 53 मिन	53// 20 मिन, 21 मिन	1.1		
83.	कबीर कॉलोनी एक्सटेंशन 3, मुसतिल नं0 53 मिन	53// 12 मिन	0.5		
84.	मजरा कॉलोनी कबीर कॉलोनी एक्सटेंशन 1, मुसतिल नं0 334, 344 मिन वगैरा	344// 5 (3, 4, 6, 7, 8 मिन), 345// (1, 10, 11 मिन)	4.18		
85.	न्यु जनता कॉलोनी, कॉलोनी एक्सटेंशन 1, अर्बन नं0 2364, 2365 मिन वगैरा.	अर्बन नं0 2364, 2365, 2367 मिन, 2368 मिन 2358 मिन, 2359 मिन, 2362 मिन, 2363 मिन, 2369 मिन	9.1		
86.	न्यु जनता कॉलोनी, कॉलोनी एक्सटेंशन 2, अर्बन नं0 2360, 2361 मिन वगैरा.	अर्बन नं0 (2360 मिन, 2361 मिन, 2362 मिन)	2.06		
87.	न्यु विजय नगर, एक्सटेंशन 1, मुसतिल नं0 17, 18 मिन वगैरा.	17// 21 मिन, 18// (7 मिन, 14 मिन, 15 मिन, 16 मिन, 17 मिन, 25, 37// 1 मिन)	3.6		
88.	न्यु अग्रसैन कॉलोनी, एक्सटेंशन 1, अर्बन नं0 2527 मिन.	अर्बन नं0 2527 मिन	1.73		
89.	न्यु अग्रसैन कॉलोनी, एक्सटेंशन 2, अर्बन नं0 2533 मिन.	अर्बन नं0 2533 मिन	0.45		
90.	पंचवटी, मुसतिल नं0 134 तथा 167 मिन	134// (18, 23 मिन), 167// 6 (3, 4, 5, 7, 14, 15, 16 मिन)	6.86		
91.	प्रवेश नगर, एक्सटेंशन 1, अर्बन नं0 6896, 6904 मिन वगैरा.	अर्बन नं0 (6896, 6904, 6905, 6906, 6913, 6914, 6915, 6916, 6933, 6934, 6947 मिन)	7.19		
92.	पेहरावार आउटर, पार्ट-1, मुसतिल नं0 62 मिन वगैरा.	62// (23, 24, 25 मिन)	1.19		
93.	पेहरावार आउटर, पार्ट-2, मुसतिल नं0 53 मिन वगैरा.	53// (2 मिन, 3 मिन)	0.37		

क्रम संख्या	कॉलोनी का नाम	खसरा संख्या/किला संख्या	क्षेत्र (एकड़ों में)	निगम का नाम	जिले का नाम
94.	राजेन्द्रा कॉलोनी, एक्सटेंशन नं० 1, मुसतिल नं० 54 मिन वगैरा.	कुताना 54 // (2 मिन, 3 मिन)	0.27		
95.	राजेन्द्रा कॉलोनी, एक्सटेंशन नं० 2, अर्बन नं० 2046, 2047 मिन वगैरा.	अर्बन नं०(2046, 2047, 2048, 2049,2051, 2061मिन)	3.68		
96.	राजीव नगर, एक्सटेंशन नं० 1, अर्बन नं० 6242, 6243 मिन वगैरा.	अर्बन नं०(6242, 6243, 6251मिन)	1.5		
97.	राजीव नगर, एक्सटेंशन नं० 2, अर्बन नं० 6330, 6738 मिन.	अर्बन नं०(6330, 6738मिन)	1.7		
98.	राजेन्द्रा नगर, एक्सटेंशन गोहाना रोड, अर्बन नं० 6870, 6871 मिन वगैरा.	अर्बन नं०(6870 मिन, 6871 मिन, 6873 मिन, 6874 मिन, 6875 मिन, 6876 मिन, 7781 मिन)	8.76		
99.	राम नगर, एक्सटेंशन 1, मुसतिल नं० 10,11 मिन	10 // 12, 17, 23, 24, 25 (13 मिन, 14 मिन, 16 मिन, 18 मिन, 19 मिन), 11 // (20 मिन, 21 मिन, 22 मिन)	9.6		
100.	राम नगर, एक्सटेंशन 2, मुसतिल नं० 22 मिन	22 // (4 मिन, 7 मिन)	0.7		
101.	राम नगर, एक्सटेंशन 3, मुसतिल नं० 20,21 मिन	(20 // (19, 20, 21, 22 मिन), 21 // (16, 24, 25 मिन)	2.5		
102.	रिशी नगर, पार्ट 1, मुसतिल नं० 10 तथा 25 मिन	10 // (16 मिन, 17 मिन, 25 मिन), 25 // (5 मिन, 6 मिन)	2.5		
103.	रिशी नगर एक्सटेंशन 2, मुसतिल नं० 25.	25 // (3 मिन, 4 मिन, 7 मिन)	1		
104.	रिशी नगर एक्सटेंशन 3, मुसतिल नं० 25 मिन	25 // (11 मिन, 12 मिन, 13 मिन)	0.71		
105.	शीतल नगर एक्सटेंशन 2, मुसतिल नं० 42 तथा 43.	42 // (1, 2, 10, 11 मिन), 43 // (5 मिन)	3.3		
106.	शीतल नगर एक्सटेंशन 3, मुसतिल नं० 43	43 // (4, 7, 8, 14 मिन)	1.8		
107.	शेरविहार एक्सटेंशन 1, मुसतिल नं० 55 मिन	55 // (2 मिन, 9 मिन)	0.7		
108.	शेरविहार एक्सटेंशन 2, मुसतिल नं० 52 मिन	52 // (14 मिन, 17 मिन, 18 मिन)	1		
109.	शेरविहार एक्सटेंशन 3, मुसतिल नं० 37 मिन	37 // (21 मिन, 22 मिन)	0.3		
110.	शेरविहार एक्सटेंशन 4, मुसतिल नं० 52 मिन	52 // (2 मिन, 3 मिन, 8 मिन, 9 मिन)	0.32		

क्रम संख्या	कॉलोनी का नाम	खसरा संख्या/किला संख्या	क्षेत्र (एकड़ों में)	निगम का नाम	जिले का नाम
111.	शिव नगर एक्सटेंशन 1, अर्बन नं0 876, 880 मिन वगैरा.	अर्बन नं0 (876, 880, 881, 882, 883 मिन)	3.6		
112.	शिव नगर एक्सटेंशन 2, अर्बन नं0 805, 806 मिन वगैरा.	अर्बन नं0 (805 मिन, 806 मिन)	0.69		
113.	शिव नगर एक्सटेंशन 3, अर्बन नं0 1542, 1544 मिन वगैरा.	अर्बन नं0 1542 मिन, 1544 मिन, 1545 मिन, 1546 मिन, 1564 मिन, 1565, 1566, 1567, 1568 मिन	3.44		
114.	सुनारीयां कलां आउटर पार्ट -1 मुसतिल नं0 91, 92 मिन वगैरा.	91 // (25 मिन), 92 // (21, 22 मिन), 109 // (1, 2, 9, 10, 11, 12 मिन)	4.31		
115.	सुनारीयां कलां आउटर पार्ट -3 मुसतिल नं0 62, 63 मिन वगैरा.	62 // 16 (6, 15, 24, 25 मिन), 63 // (10, 21 मिन) 76 // (1 मिन), 77 // (4, 5 मिन)	6.35		
116.	सुनारीयां कलां आउटर पार्ट -4 मुसतिल नं0 94 मिन.	94 // (19 मिन, 22 मिन, 23 मिन)	1.5		
117.	सुनारीयां कलां आउटर पार्ट -5 मुसतिल नं0 107 मिन.	107 // (23 मिन)	0.49		
118.	सुनारीयां कलां आउटर पार्ट -6 मुसतिल नं0 76, 94 मिन .	76 // (24 मिन), 94 // (3, 4 मिन)	1.33		
119.	सुनारीयां कलां आउटर पार्ट -7 मुसतिल नं0 78, 79 मिन.	78 // 9, 10, (11, 12 मिन), 79 // (6 मिन)	4.36		
120.	सुनारिया खुर्द आउटर पार्ट -1 मुसतिल नं0 18, 19 मिन वगैरा.	18 // (15, 16 मिन), 19 // (11, 12, 18, 19, 20 मिन)	3.03		
121.	सुनारिया खुर्द आउटर पार्ट -3 मुसतिल नं0 4, 18 मिन.	4 // (25 मिन), 18 // (3, 4, 5, 7, 8 मिन)	2.47		
122.	सुर्या नगर , एक्सटेंशन.1 सिंह पुरा रोड, अर्बन नं0 453, 456 मिन वगैरा.	अर्बन नं0 (453, 456 मिन)	0.86		
123.	सुर्या नगर , एक्सटेंशन.2 सिंह पुरा रोड, अर्बन नं0 451, 452 मिन वगैरा.	अर्बन नं0 (451, 452, 453 मिन)	1.08		

क्रम संख्या	कॉलोनी का नाम	खसरा संख्या/किला संख्या	क्षेत्र (एकड़ों में)	निगम का नाम	जिले का नाम
124.	ताऊ नगर एक्सटेंशन मुसतिल 172, 173 मिन वगैरा,	172 // 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 17, 18 (12, 19, 22, 23, 24, 25 मिन), 173 // (10, 11, 12, 21 मिन, 200 // (4, 5 मिन)	16.04		
125.	विशाल नगर एक्सटेंशन.1, मुसतिल नं0 70 मिन.	70 // (14 मिन, 15 मिन)	0.59		
126.	विशाल नगर एक्सटेंशन.2, मुसतिल नं0 51, 61 मिन वगैरा.	51 // (16, 17, 18, 23, 24, 25 मिन), 61 // (3, 4 मिन)	3.7		
127.	डैयरी काम्प्लैक्स के विपरीत क्षेत्र पार्ट 1 (मुसतिल नं0 27 मिन)	27 // 9, 3मिन, 8मिन, 12मिन, 13मिन	2.05		
128.	डैयरी काम्प्लैक्स के विपरीत क्षेत्र पार्ट 2 (मुसतिल नं0 27 मिन)	27 // 7मिन, 8मिन, 14मिन	0.87		
129.	बौहर आउटर पार्ट 1-ए (मुसतिल नं0 123 मिन, 144 मिन)	123 // 22मिन, 23मिन 144 // 2मिन, 3मिन, 4मिन, 7मिन, 8मिन	2.64		
130.	बौहर आउटर पार्ट 1-बी (मुसतिल नं0 144 मिन, 145 मिन)	144 // 25मिन, 6मिन, 7मिन, 15मिन 145 // 8मिन, 11मिन, 12मिन, 13मिन, 18मिन, 19मिन	3.84		
131.	बौहर आउटर पार्ट 2 (मुसतिल नं0 156 मिन, 181 मिन, 191 मिन)	156 // 13मिन, 14मिन, 15मिन, 16मिन, 17मिन, 18मिन, 23मिन 181 // 2मिन, 3मिन, 8मिन, 9मिन, 12मिन, 13मिन, 18मिन, 19मिन, 22मिन, 23 मिन 191 // 2मिन	9.5		
132.	बौहर आउटर पार्ट 3 (मुसतिल नं0 191 मिन, 192 मिन)	191 // 1मिन, 2मिन, 9मिन 192 // 6, 12, 13, 18मिन, 20मिन, 5मिन, 7मिन, 8मिन, 9मिन, 11मिन, 14मिन, 15मिन, 19मिन, 21मिन	11.5		
133.	फ्रैन्ड्स कॉलोनी एक्सटेंशन 2-बी (मुसतिल नं0 301 मिन, 302 मिन)	301 // 9मिन, 10मिन 302 // 6मिन, 15मिन)	2.71		
134.	गढी बौहर आउटर पार्ट 1-बी (मुसतिल नं0 285 मिन) Garhi Bohar Outer Part 1-B (Mustil No.285 Min)	285 // 6मिन, 7मिन, 14मिन, 15मिन	1.88		
135.	गढी बौहर आउटर पार्ट 1-सी (मुसतिल नं0 286 मिन)	286 // 12, 19, 22, 9मिन, 10मिन, 11मिन,	4.27		
136.	गढी बौहर आउटर पार्ट 1-डी (मुसतिल नं0 298 मिन)	298 // 4, 2मिन, 3मिन, 7मिन, 8मिन, 9मिन,	3.97		

क्रम संख्या	कॉलोनी का नाम	खसरा संख्या/किला संख्या	क्षेत्र (एकड़ों में)	निगम का नाम	जिले का नाम
137.	गढी बौहर आउटर पार्ट 1-ई (मुसतिल नं० 298 मिन)	298 // 13मिन, 14मिन, 17मिन, 18मिन	2.57		
138.	कनहेली आउटर पार्ट 2-ए (मुसतिल नं० 43 मिन)	43 // 5, 4मिन, 6मिन	1.69		
139.	कनहेली आउटर पार्ट 2-बी (मुसतिल नं० 43 मिन, 44 मिन)	43 // 15, 16मिन, 44 // 11मिन, 19मिन, 20मिन, 22मिन	3.25		
140.	खेडी साद आउटर पार्ट 1-ए (मुसतिल नं० 36 मिन, 49 मिन)	36 // 13, 14, 18, 23, 7मिन, 8मिन, 9मिन, 12मिन, 15मिन, 16मिन, 17मिन, 22मिन 49 // 3मिन, 4मिन, 5मिन)	7.83		
141.	खेडी साद आउटर पार्ट 1-बी (मुसतिल नं० 49 मिन)	49 // 13मिन, 14मिन, 15मिन, 16मिन, 17मिन, 18मिन, 19मिन	3.58		
142.	खेडी साद आउटर पार्ट 1-सी (मुसतिल नं० 49 मिन, 67 मिन) KheriSadh Outer Part 1-C (Mustil No.49 Min, 67 Min)	49 // 24मिन, 25मिन 67 // 4, 3मिन, 5मिन, 6मिन, 7मिन	2.98		
143.	खेडी साद आउटर पार्ट 2 (मुसतिल नं० 65 मिन, 66 मिन)	65 // 9मिन, 10मिन 66 // 7, 6मिन, 14मिन, 15मिन	5.47		
144.	खेडी साद आउटर पार्ट-3 (मुसतिल नं० 50 मिन, 65 मिन)	50 // 16मिन, 17मिन, 24मिन 65 // 4मिन	2.25		
145.	खेडी साद आउटर पार्ट 4-ए (मुसतिल नं० 34 मिन)	34 // 16मिन, 17मिन, 24मिन	1.24		
146.	खेडी साद आउटर पार्ट 4-बी (मुसतिल नं० 35 मिन)	35 // 6, 5मिन, 7मिन	2.35		
147.	शीतल नगर एक्सटेंशन 1-ए (मुसतिल नं० 41 मिन, 42 मिन)	41 // 10मिन, 11मिन, 20मिन 42 // 6मिन, 15मिन	1.09		
148.	शीतल नगर एक्सटेंशन 1-बी (मुसतिल नं० 42 मिन)	42 // 7मिन, 14मिन	0.85		
149.	सुनारिया खुर्द आउटर पार्ट-2 (मुसतिल नं० 20मिन, 27 मिन)	20 // 7मिन, 13मिन, 14मिन, 15मिन, 17मिन, 18मिन, 23मिन, 24मिन 27 // 2मिन, 3मिन, 4मिन	5.49		

क्रम संख्या	कॉलोनी का नाम	खसरा संख्या/किला संख्या	क्षेत्र (एकड़ों में)	निगम का नाम	जिले का नाम
150.	सुनारिया कलां आउटर पार्ट 2-ए (मुसतिल नं० 78 मिन)	78 // 14मिन, 15मिन, 16मिन, 17मिन, 18मिन, 19 मिन, 23मिन, 24मिन	2.81		
151.	सुनारिया कलां आउटर पार्ट 2-बी (मुसतिल नं० 92 मिन)	92 // 8मिन, 9मिन, 10मिन, 11मिन, 12मिन	1.76		
152.	अस्थल बोहर एक्सटेंशन-5 मुसतिल नं० 299, 300 मिन वगैरा	299 // 11मिन, 19मिन, 20मिन, 22मिन 300 // 16मिन, 17मिन, 24मिन	2.72		
153.	फंडस कॉलोनी, एक्सटेंशन-6, मुसतिल नं० 281, 282, 301 मिन वगैरा	281 // 13मिन, 14मिन, 15मिन, 16मिन. 282 // 18मिन, 19मिन, 20मिन, 21मिन, 22मिन, 23मिन	4.85		
154.	फंडस कॉलोनी, एक्सटेंशन-6, मुसतिल नं० 280, 281 मिन वगैरा	281 // 9मिन, 10मिन, 11मिन, 12मिन	0.91		
155.	सरस्वती विहार पार्ट 1	54 // 19मिन, 20मिन, 21मिन, 22मिन, 23मिन 59 // 1मिन, 2मिन, 3मिन, 9मिन, 10मिन, 12मिन 58 // 5मिन	4.380	नागरनिगम, सोनीपत	सोनीपत
156.	सरस्वती विहार पार्ट 1	53 // 19मिन, 20मिन, 21मिन, 22मिन 54 // 16मिन, 25मिन 59 // 5मिन, 6मिन 60 // 1मिन, 2मिन, 60मिन	6.01		
157.	लक्ष्मी नगर	17 // 23मिन, 24मिन, 25मिन 27 // 3, 4मिन, 5मिन, 6, 7मिन, 8मिन, 12मिन, 13मिन, 14मिन, 15, 16, 17मिन, 18मिन, 19मिन, 20मिन	10.85		
158.	प्रगती नगर	784मिन, 785मिन, 786मिन, 787मिन, 788मिन, 789मिन, 815मिन, 816मिन, 817मिन, 818मिन, 819मिन	4.29		
159.	मायुर विहार	2 // (22मिन, 23मिन, 24मिन, 25मिन), 11 // (6मिन, 15मिन), 10 // (1मिन, 2मिन, 3मिन, 4मिन, 5मिन, 6मिन, 7मिन, 8मिन, 9मिन, 10मिन, 11मिन, 12मिन, 13मिन, 14मिन, 15मिन, 16मिन, 17मिन, 18मिन, 19मिन, 22मिन, 23मिन, 24मिन, 25मिन), 13 // (2मिन, 3मिन, 4मिन, 5मिन, 6मिन, 7मिन, 8मिन, 9मिन, 12मिन, 13मिन, 14मिन, 15मिन, 18मिन, 19मिन, 22मिन, 23मिन, 24मिन), 14 // 3मिन, 4, 5, 6मिन, 7मिन, 8मिन, 15मिन	38.87		

क्रम संख्या	कॉलोनी का नाम	खसरा संख्या/किला संख्या	क्षेत्र (एकड़ों में)	निगम का नाम	जिले का नाम
		15//1, 2, 3मिन, 4मिन, 5मिन, 6मिन, 7मिन, 8मिन, 9मिन, 10, 11मिन, 12मिन, 13मिन, 14मिन, 15मिन 8//17मिन, 18मिन, 19मिन, 20मिन, 21, 22, 23, 24मिन, 25मिन 9//1मिन, 2मिन, 6मिन, 7मिन, 8मिन, 9, 10, 11मिन, 12मिन, 13, 14, 15मिन, 16, 17, 18मिन, 19मिन, 20मिन, 23मिन, 24मिन 10//5मिन, 6मिन, 15मिन 7//21मिन 16//1मिन, 10मिन			
160.	हनुमान नगर	1457मिन, 1467मिन, 1452मिन, 1148मिन, 1449मिन	3.63		
161.	शांती विहार एक्सटेंशन	7//6मिन, 7मिन, 13मिन, 14मिन तथा 15मिन	Part-I: 0.98		
		6//21मिन 11//1मिन, 7//25मिन	Part-II: 1.44		
162.	कम्बोज कॉलोनी वार्ड नं0 1	84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111	7.56	नगरनिगम, यमुनानगर	यमुनानगर
163.	उषा कॉलोनी वार्ड नं0 1	61//16 मिन, 25 मिन, 59//20 मिन, 21 मिन, 22 मिन, 23 मिन, 67//1 मिन, 2 मिन	2.53		
164.	बाबा कॉलोनी वार्ड नं0 3	31//24 मिन, 25 मिन 38//4मिन, 7 मिन, 30 मिन, 31 मिन, 14मिन, 5	3.16		
165.	इन्द्रपुरम कॉलोनी	74//37 मिन, 38 मिन, 39 मिन, 40 मिन, 46 मिन 85//29 मिन, 49/1 मिन, 49/2 मिन	4.38		
166.	उप्ल मॉल के पिछे कॉलोनी वार्ड नं0	101//45 मिन, 46 मिन, 48 मिन, 50 मिन, 111//30 मिन, 31 मिन, 47	4.05		

क्रम संख्या	कॉलोनी का नाम	खसरा संख्या/किला संख्या	क्षेत्र (एकड़ों में)	निगम का नाम	जिले का नाम
167.	शमशानघाट के पिछे प्यारे जी का मन्दिर वार्ड नं0 5	101//29 मिन, 34 मिन, 33 मिन, 31/2 मिन, 30 मिन, 40मिन 102//34मिन	6.18		
168.	गोबिन्दगढ फार्म वार्ड नं0 5	123//7 मिन, 13 मिन, 14 मिन, 15 मिन, 124//11मिन, 20 मिन, 21 मिन	2.75		
169.	ग्रीन विहार पार्ट II चहेन्ती रोड पर वार्ड नं0 5	77// 16 मिन, 17 मिन, 78//21, 22 मिन, 81//1 मिन, 2 मिन 24, 25	3.64		
170.	मांद्रुगेशवरी कॉलोनी वार्ड नं0 5	28//1 मिन, 2 मिन, 22// 19 मिन, 21 मिन, 22 मिन,23 मिन	4.6		
171.	सैनी फार्म वार्ड नं0 5	4//1/1 मिन, 1/2, 2 मिन, 9 मिन	1.434		
172.	शिवपुरी जगाधरी कॉलोनी वार्ड नं0 5	123//5 मिन, 6 मिन, 124//1 मिन, 3 मिन, 4 मिन, 11 मिन 7, 8, 9, 10,	4.87		
173.	ग्रीन विहार पार्ट III वार्ड नं0 5	49//11 मिन, 20 मिन, 21 मिन 50//14 मिन, 17 मिन, 24 मिन, 25 मिन 15, 16	1.94		
174.	नवनीत जैन हस्पताल के पिछे गढी मुंडो तापरीयां	88//1 मिन, 88/2 मिन, 90 मिन, 91 मिन	1.05		
175.	जैन अवैन्नु वार्ड नं0 6	302/2, 303/3 मिन, 308/1 मिन, 308/2 मिन	4.03		
176.	बैंक कॉलोनी वार्ड नं0 7	17//18 मिन, 22 मिन, 23 मिन 27//2, 3 मिन, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 मिन, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 32//2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	18.74		

क्रम संख्या	कॉलोनी का नाम	खसरा संख्या/किला संख्या	क्षेत्र (एकड़ों में)	निगम का नाम	जिले का नाम
177.	त्यागी गार्डन कॉलोनी वार्ड नं० 7	280 मिन, 290 मिन, 320 मिन, 332 मिन, 351 मिन, 353 मिन, 354 मिन, 331 मिन, 350 मिन, 330 मिन, 288 मिन, 289, 283, 282	4.85		
178.	विशाल नगर कॉलोनी वार्ड नं० 7	273 मिन, 282 मिन, 276 मिन, 278, 259, 258 मिन, 252, 261, 273, 277, 275, 283, 271, 272, 273, 266HT, 270, 279 मिन	6.50		
179.	मोतीबाग कॉलोनी वार्ड नं० 7	292 मिन, 293 मिन, 294 मिन, 295, 296 मिन, 297 मिन, 298.307, 308 मिन, 317, 318, 320 मिन, 321 मिन, 315, 316 मिन, 248 मिन	11.32		
180.	माया पुरी, तैजली वार्ड नं० 11	1016 मिन, 1017 मिन, 1018 मिन, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025 मिन	5.57		
181.	शांती कॉलोनी वार्ड नं० 11	15// 16 मिन, 25 मिन, 16//2 मिन, 3 मिन, 7, 8, 9 मिन, 12 मिन, 13, 14, 29, 30, 31, 15, 16, 17, 18, 19, 20 मिन, 21, 22, 23, 24, 25 22// 10 मिन, 12 मिन, 13 मिन, 8 मिन 6 मिन, 1/1 मिन, 2/2 मिन 23// 1, 2, 3, 4, 5 मिन, 6/2 मिन, 6/1 मिन, 7 मिन, 8 मिन, 9 मिन, 10 मिन 24// 5 मिन, 6/1 मिन	23.10		
182.	सुन्दर नगर कॉलोनी वार्ड नं० 11	996 मिन, 994 मिन, 993 मिन, 990, 999 मिन, 989, 1029 मिन,	2.20		
183.	सुन्दर विहार फ़ैस 7	818 मिन, 819 मिन, 821 मिन, 822 मिन, 823 मिन,	2.85		
184.	गढहोली माजरी कॉलोनी वार्ड नं० 12	27// 19 मिन 56 मिन, 117, 118, 119	0.96		
185.	रूप नगर वार्ड नं० 12	2//22 मिन, 5//19, 20, 21, 22, 11 मिन, 12मिन, 6//2, 3, 4 मिन, 7 मिन, 8, 9, 12, 13, 14 मिन, 15 मिन, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 13//3, 4, 5, 6, 7 मिन, 8 मिन, 9 मिन, 13 मिन, 14 मिन, 15 मिन, 16 मिन, 14//1, 2 मिन, 10 मिन, 11 मिन, 20 मिन	26.55		

क्रम संख्या	कॉलोनी का नाम	खसरा संख्या/किला संख्या	क्षेत्र (एकड़ों में)	निगम का नाम	जिले का नाम
186.	जम्मू कॉलोनी वार्ड नं० 14	21//2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 मिन, 21 मिन, 22 मिन, 23, 24, 25 14//22मिन, 23मिन, 24मिन, 25मिन	18.20		
187.	लाल डोरा से बाहर जोरिया वार्ड नं० 17	21//27 मिन, 35 मिन, 26 मिन, 11 मिन, 12/2 मिन, 12/1 मिन, 9/1मिन, 2,मिन, 32 मिन, 55 मिन, 3/2मिन	1.40		
188.	शिव नगर वार्ड नं० 17	19//10 मिन, 11 मिन 20//2 मिन, 3, 4, 5, 6 ,7 ,8 ,9 मिन, 12 मिन, 13, 14, 15, 16 मिन,17 मिन, 18 मिन, 19 मिन, 39//22 मिन, 23 मिन, 45//2, 3, 4, 9 मिन, 7/2, 12 मिन, 13/1 मिन, 19 मिन, 7 मिन, 8 मिन	12.14		
189.	लक्ष्मी नगर कॉलोनी वार्ड नं० 17	22//3 मिन, 4, 5 मिन, 6 मिन, 7, 8, 9 मिन, 12/1, 13, 14, 15, 16 मिन, 17 मिन, 18 मिन, 19, 23 मिन, 24 मिन, 25 मिन, 20//16 मिन, 17 मिन, 23 मिन, 24, 25 मिन	12.6		
190.	जवाहर नगर वार्ड नं० 18	136 मिन, 137 मिन, 138 मिन, 139, 140, 141, 143, 151, 149, 153, 161, 162, 160, 163, 164, 165, 166, 157, 158, 159, 154, 155, 156, 173 मिन, 174, 167, 168, 169 मिन, 172 मिन	19.73		
191.	नानक नगर वार्ड नं० 18	7//20 मिन, 21 मिन 8//16 मिन, 17 मिन, 18 मिन, 22 मिन, 23, 24, 25 14//1/1 मिन, 2/1 मिन, 2/3 मिन, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मिन, 9 मिन, 13/1 मिन, 14 मिन, 16 मिन 15//11, 12 मिन, 19 मिन, 20	14.59		
192.	आर्य नगर वार्ड नं० 20	10//23 मिन, 24, 25 मिन, 21//3मिन, 4 मिन, 5 मिन, 6मिन, 7, 8/1, 8/2, 14, 15, 9 मिन, 10, 11, 12, 20, 19//मिन, 19/2मिन	8.78		
193.	अशोक विहार वार्ड नं० 20	27//11 मिन, 12 मिन, 19 मिन, 21 मिन, 22 मिन 26//14 मिन, 15 मिन, 32//2, 9 मिन, 10, 11 मिन, 12 मिन 33//6/4, 7/2 मिन, 6/2 मिन, 15/2 मिन, 14/2 मिन, 15 मिन 26, 27	11.10		

क्रम संख्या	कॉलोनी का नाम	खसरा संख्या/किला संख्या	क्षेत्र (एकड़ों में)	निगम का नाम	जिले का नाम
194.	बुतर विहार वार्ड नं० 20	25 // 16 मिन, 25 मिन, 26 // 20/1 मिन, 20/2 मिन, 21/1, 21/2, 19 मिन, 22 मिन, 34 // 4 मिन, 5, 6, 7 मिन, 14 मिन, 15 मिन 33 // 1, 2 मिन, 9 मिन, 10, 11, 12 मिन	9.96		
195.	मायापुरी वार्ड 20	17 // 2 मिन, 3 मिन, 4 मिन, 7 मिन, 8, 9, 12, 13, 14 मिन, 19 मिन, 18 मिन	6.95		
196.	लाल डोरा के बाहर मंदेबार वार्ड 18	311मिन, 312मिन, 310मिन, 291मिन, 290मिन, 271मिन, 270मिन, 273, 274, 276, 268मिन, 269मिन, 289मिन, 275, 313मिन, 302मिन.	5.24		
197.	सरदा कॉलोनी वार्ड 12	10 // 14मिन, 15मिन, 16मिन, 17मिन, 24मिन, 25मिन	0.99		
198.	कैलाश नगर कॉलोनी वार्ड 12	18 // 4/1मिन, 11 // 24मिन, 25मिन	1.05		
199.	राजधानी कॉलोनी वार्ड 11	817मिन, 825मिन, 826मिन, 827, 816मिन, 828मिन, 829मिन	5.96		
200.	ळनुमान कॉलोनी वार्ड नं० 11	17 // 4मिन, 7मिन	0.76		
201.	राजिव गार्डन कॉलोनी वार्ड नं० 7	16 // 21मिन, 22मिन, 23मिन, 24मिन, 25मिन 15 // 21मिन, 22मिन 27 // 5मिन, 6मिन 28 // 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9मिन, 10मिन, 12मिन, 13मिन, 14मिन, 15, 16मिन, 17मिन 29 // 11मिन, 12मिन, 20मिन, 17 // 25मिन	19.60		
202.	न्यु जैन नगर वार्ड नं०6	105/1मिन, 106/1मिन, 106/2मिन, 106/3मिन	1.78		

क्रम संख्या	कॉलोनी का नाम	खसरा संख्या/किला संख्या	क्षेत्र (एकड़ों में)	निगम का नाम	जिले का नाम
203.	भागीरथ कॉलोनी	101 / / 27, 28, 29मिन, 39मिन, 40मिन, 41 / 1मिन, 42मिन, 43मिन, 44मिन, 45मिन	3.65		

* उपरोक्त क्षेत्र/कालोनी की परिसीमाएं सम्बन्धित नगरपालिकाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुमोदित योजना में निर्दिष्ट हैं और सम्बन्ध मण्डल आयुक्तों द्वारा विधिवत सिफारिश की गई है।

हाई टेंशन लाइन या गैस/पेट्रोलियम पाइप लाइन/ लेआउट योजना और विकास योजना में दिखाई गई प्रस्तावित सड़क के सरेखन के प्रभाव क्षेत्र के अधीन आने वाले भूखंडों को हाई टेंशन लाइन को हटाने तथा विकास योजना में संशोधन तक इस अधिसूचना के अधीन नहीं माना जाएगा।

आवासीय उपयोग के लिए अनुमति मांगने तक वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत और आवासीय से भिन्न अन्य उपयोगों को इस अधिसूचना के अधीन नहीं माना जाएगा।

आनंद एम० शरण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय, विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 28th September, 2018

No.20/65/2018-6C-I.— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act, 2016(14 of 2016), the Governor of Haryana hereby declares the following areas as specified in the Schedule given below to be the civic amenities and infrastructure deficient areas, namely:-

SCHEDULE

Serial Number	Name of colony	* Khasra Number/ kila number	Area (in acres)	Name of Corporation	Name of District
1	2	3	4	5	6
1.	King Vihar-I Colony	HB. No.60 (Dhulkot) 28// (Min 19, 22, 23) 35// (Min 2, 3, 8, 9)	3.29	Municipal Corporation Ambala	Ambala
2.	Veeta Vihar	HB. No.60 (Dhulkot) 34// (Min 20, 21,) 35// (Min 16, 24, 25,) 38//5, (Min 4, 6, 7) 39// (Min 1, 10, 11, 20)	7.59		
3.	Surya Colony	HB. No.31 (Kakru) 24// (Min 2, 3, 8, 9)	2.58		
4.	Extension Krishna Colony	HB No.51 (Patti Kalalan) 12//Min, 4, 6, 7, 15)	1.09		

Serial Number	Name of colony	* Khasra Number/ kila number	Area (in acres)	Name of Corporation	Name of District
1	2	3	4	5	6
5.	Arpit Enclave	HB No.114 (Sonda) 47// (Min 21) 48// (Min 25) 54// (Min 5, 6) 55// (Min, 1)	1.96		
6.	Preet Nagar	HB No.113 (Jandli) 55// 7, 8 (Min, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17) 56// (Min 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12)	8.06		
7.	J. J. Colony	H.B. No. 113 (Jandli) 31// (Min, 21) 32// (Min 23, 24, 25) 40//, (Min 3, 4, 5, 6, 7, 8) 41// (Min 1, 2, 9, 10)	3.89		
8.	NareshVihar-I	HB No.38 (Patti Jattan) 55// (Min, 21, 22, 23) 58 (Min 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17)	4.82		
9.	NareshVihar-II	HB No.38 (Patti Jatan) 58// (Min, 16, 25) 59// (9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, Min) 70// (Min, 1, 2, 3, 4, 5, 9,10) 71// (Min 5)	10.96		
10.	Extension Uttam Nagar	HB No. 58 (Patti Mehar) 12// (22, 23) (Min 13, 18, 19, 20, 21, 24, 17) 15// (Min 1, 2, 3,4)	6.97		
11.	Extension Manmohan Nagar	HB. No. 38 (Patti Jattan) 50// (Min, 10, 11, 12, 19, 20)	2.08		
12.	Ranjeet Nagar	HB. No. 56 (Patti Mehar) 16// (Min, 6, 15, 16, 17, 24, 25,) 17//7, 8, 14 (Min 2, 3, 4, 9,	15.43		
13.	Mandhour Industrial Area	HB No. 60 (Dhulkot) 18// (Min, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 17//10 (Min 1, 2, 9, 10, 11, 12)	18.48		
14.	Sena Colony	HB No.113 (Jandli) 4// (Min, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20)	3.97		
15.	Mandhour Industrial Area-II	HB No. 60 (Dhulkot) 18// (Min, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 24// (Min 1)	5.49		

Serial Number	Name of colony	* Khasra Number/ kila number	Area (in acres)	Name of Corporation	Name of District
1	2	3	4	5	6
16.	Anand Vihar	HB No. 104 (Nanhera) 7//20 (Min 11, 12, 19, 21, 22) 8//25 (Min 24) 15// (Min 4, 5, 6) 16// (1, 10) Min	6.89		
17.	Milap Nagar	HB No. 104 (Nanhera) 8//8, 9, 10, 13, (Min 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24)	12.11		
18.	Palam Vihar E	HB No. 102 (Naggal) 18//25 (Min 14, 15, 16, 17, 24) 19// (Min 20, 21) 25// (Min 1, 10) 26//5 (Min 4, 6, 7, 14, 15)	6.73		
19.	Deep Nagar	HB No. 102 (Naggal) 14// (Min, 20, 21, 22) 15//25 (Min 15, 16) 17//5 (Min 6) 18//1, (Min 2, 9, 10)	7.63		
20.	Gandhi Nagar	HB No. 103 (Kardhan) 2//24 (Min, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25) 4//10, 11, 12, 19, 20, 21, (Min 1, 2, 8, 9, 13, 17, 22, 23) 5// 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15 (Min 1, 5, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 25) 8// (Min 5) 9// (Min 1, 2) Urban No.26, 27	29.96		
21.	Shankar Park	HB No. 102 (Naggal) 14//23 (17, 18, 19, 20, 21, 22, 24) Min 18// (2, 3, 4, 7) min	5.32		
22.	Krishna Nagar B	HB No. 63 (Babyal) 18//22 (Min 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25) 21//1, 2, 3 (Min 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20)	12.30		
23.	Luxmi Nagar	HB No. 103 8//22 (Min 19, 20, 21, 23) 16// (Min 1, 2, 3)	3.94		
24.	Ashok Vihar	HB No. 103 (Kardhan) 9//21 (Min 19, 20, 22, 23) 15//1, 2 (Min 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11) Urban No.33	8.35		

Serial Number	Name of colony	* Khasra Number/ kila number	Area (in acres)	Name of Corporation	Name of District
1	2	3	4	5	6
25.	Shant Nagar Satsang Nagar	HB No. 103 (Kardhan) 9//12, 13, 14, 15 (Min 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25) 10// (Min 11) 15// (Min 4)	12.29		
26.	Rajender Enclave Colony	5018/1, 5019/1, 5022/1, 5023, 5024, 5227, 5228	4.51	Municipal Corporation	Hisar
27.	Vidya Nagar University Vihar Colony, Aggarwal Colony Ext.	140//11 min, 20 min, 21min 141// 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1 min, 2 min, 7 min, 8 min, 9 min, 10 min, 11 min, 12 min, 13 min, 14 min, 15 min, 16 min, 23 min, 24 min, 25 min, 142// 16 min, 25 min	16.01	Hisar	
28.	Satya Nagar	113//30, 26, 114//26 min, 27, 140//1,2,10 min, 141//5 min, 4 min, 6 min, 7 min,	6.91		
29.	Baba Harsukhpuri Colony	96// 22 min, 23 min, 24 min, 25min 114// 10 min, 11min 115// 2 min, 3 min, 4, 5, 6, 7 min, 8 min, 9 min, 14 min, 15 min	8.81		
30.	Shaheed Bhagat Singh Colony	1150// 10min, 11 min 1151// 6 min, 7, 8, 9, 10 min, 11 min, 12 min, 13 min, 14 min, 15min	7.43		
31.	Master Colony	72// 3 min, 4 min, 5 min, 6, 7, 8 min, 15 73// 1 min, 10, 11,	6.97		
32.	Hanuman Colony	103// 3 min, 4, 5, 6, 7min, 8 min, 14 min,15min 104// 6 min, 7 min, 11 min, 12, 13, 14, 15 min, 16, 17, 18 min, 24, 25, 105// 20 min, 21min 114// 1, 9 min, 10, 11, 12min 115// 4min, 5, 6 min, 7min	20.73		
33.	Choudhary Colony	71// 15 min, 16min 72// 11min, 20 min, 21min 86// 1min	3.46		
34.	Model Town Ext-II	4944, 4945, 4947, 4948, 4949, 4970, 4971, 4972, 4973, 4974, 4975, 4976, 4977, 4978	26.91		
35.	Mahabir Colony Ext-I	6525, 6530, 6531, 6539, 6540, 6541, 6543, 6609, 6612, 6613, 6614, 6618, 6619, 6620, 6621, 6622, 6623, 6628, 6681, 6682, 6684, 6687, 6688, 6694, 6695, 6699, 6697, 6627	19.39		

Serial Number	Name of colony	* Khasra Number/ kila number	Area (in acres)	Name of Corporation	Name of District
1	2	3	4	5	6
36.	Mahabir Colony Ext-II	6372, 6373, 6522, 6523, 6524, 6525, 6487, 6488, 6489, 6490, 6375, 6380, 6381	14.35		
37.	Dev Vatika	7120, 7135, 7158, 7159, 7160, 7161, 7165, 7166, 7181, 7185, 7187, 7169	5.89		
38.	Kaushik Nagar	93//6 min, 14 min, 15min, 16 min, 17min 94// 10 min, 11 min, 12 min, 13 min, 14 min, 16 min, 17 min, 18 min, 19 min, 20, 21, 22, 23, 24, 25min 107// 1,2, 3, 4 min, 5 min	17.20		
39.	Krishna Nagar Ext. Colony	3838, 3839, 3840, 3841, 3847, 3849, 3850, 3851, 3852, 3855, 3856, 4114, 4115, 4116, 4117, 4297, 4300, 4301, 4303	14.26		
40.	Prithvi Vihar	7677min, 7679min, 7685min, 7672min, 7670, 7668min, 767min, 7669, 7671min, 7684, 7680, 7681, 7682min, 7683, 7719, 7718min, 7720min, 7717min, 7710min, 7709min, 7721min, 7722min, 7723, 7724min, 7763min, 7754min, 7755min, 7735min, 7736min, 7753min, 7752min, 7762min, 7764min, 7761min, 7765, 7766min, 7760/1min, 7602, 7746min, 7757min	26.67	Municipal Corporation Karnal	Karnal
41.	Kanika Vihar Colony	8400, 8401, 8402min, 8403min, 8404min, 8405, 8406, 8408, 8409, 8410, 8411, 8412, 8413, 8393min, 8394, 8395, 8397, 8398, 8427, 8416min, 8425, 10031/8426, 10032/8426, 10035/8430min, 10033/8426, 10036/8428/8430, 10034/8430min, 8428min,	32.31		
42.	Vikas Colony	8325min, 2328/8226/2, 8223, 8221, 8224, 8220, 8219, 8218min, 8232min, 8231min, 8230min, 8228, 8229min, 8119min, 8197min, 8263min, 8217/1, 8217/2, 8216min, 8215min, 8216min, 8210min, 8212min, 8213, 8204, 8195min, 8194min, 8206min, 8205min, 8042min, 8193, 8031min, 8176min, 13101/8175, 13102/8175, 13100/8174min, 13099/8174min, 13098/8174, 8053min, 8054min, 8055min.	29.04		

Serial Number	Name of colony	* Khasra Number/ kila number	Area (in acres)	Name of Corporation	Name of District
1	2	3	4	5	6
43.	Moti Nagar Extn.	8943min, 8941min, 8945min, 8946min	2.96		
44.	Bhatt Colony	4559min, 4558, 4560min, 4562, 4563, 4555min, 4564, 4554min, 4556, 4557	4.28		
45.	Shri Ram Colony	4460Min, 4459Min, 4457Min 4407Min, 4408Min, 4419min	2.322		
46.	Vikas Nagar Colony	53//1/1, ½, 2/1/1, 2/1/2, 2/2, 3, 4, 5, 26, 6min, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 15min, 14, 16, 17, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 24, 25min, 26, 50//11min, 12min,13/1min, 13/2min, 14/1min, 14/2min, 18/3min, 19, 20, 21, 22, 23min, 7/1/1min 7/1/2, 8/3/2, 8/3/1, 51//13/2min, 14/2min, 15min, 16, 17, 18, 23, 29, 28, 23, 22/2min, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2 52//2/1min, 2/2min, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1/1, 5/1/2, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2, 9min, 12min, 13min, 14, 15, 26, 16, 17/1min, 17/2min, 25/1min, 25/2min, 24/2min Revenue Estate of village Phoosgarh 7428min, 7424min, 7427min, 7426min, 7425min, 7423min,	54.808		
47.	Gurunank Pura -II	794min, 795min, 796min ,797min	2.12		
48.	Gurunank Pura-III	786MNin, 790Min, 792Min	3.478		
49.	Krishna Colony	7997Min, 7989Min, 7990Min,	4.779		
50.	Radha Krishan Colony	79//16 min, 25 min, 80//20 min, 21 min, 87//1 min, 10 Revenue Estate of Uchana	1.28	Municipal Corporation Panchkula	Panchkula
51.	Lohgarh Colony	Revenue Estate Lohgarh: 55, 289Min, 290, 318Min, 321Min, 322Min, 334, 335, 336, 337, 351, 352, 353, 354, 355Min, 356, 357, 358, 359, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 378Min, 399, 401Min, 402, 413Min, 414Min, 451Min, 452Min, 453, 454, 456, 457, 458min, 513/2Min	11.91		

Serial Number	Name of colony	* Khasra Number/ kila number	Area (in acres)	Name of Corporation	Name of District
1	2	3	4	5	6
52.	Manakpur Nanak Chand	Revenue Estate Manakpur Thakur Dass: 203Min, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228Min, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237Min, 214/1, Revenue Estate Manakpur Nanak Chand: 291Min, 295, 296Min, 297, 298, 299, 311Min, 312Min, 313, 314, 316Min, 317,	9.49		
53.	Krishna Enclave	Revenue Estate Bitna: 6, 7, 8, 9Min, 13Min, 14Min, 15, 16Min, 23Min, 24, 25, 26, 27, 28Min, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, .38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48Min	21.47		
54.	Ishar Nagar Colony	Revenue Estate Islamnagar: 7Min, 8Min, 9Min, 10Min, 11Min, 12Min, 14Min, Revenue Estate Bhogpur: 170/92Min	7.12		
55.	Islam Nagar Colony Part-1	Revenue Estate Islamnagar: 46Min, 47Min, 49Min	3.22		
56.	Ajeet Colony Ext.-1, Mustil No. 34, 46 min	34// (24 min, 25 min), 46//(4 min, 5 min, 7 min)	1.3	Municipal Corporation Rohtak	Rohtak
57.	Ajeet Colony Ext.-2 Mustil no. 46 Min etc.	46//(20 min , 21 min), 47//(25 min)	0.6		
58.	Amrit Colony Ext., Mustil no. 19 min.	19//18 min, 19 min, 22, 23 min	2.4		
59.	AsthalBohar Ext.-3 Mustil no. 318 Min	318//(9 min, 10 min, 12 min, 19 min)	1.4		
60.	Azad Garh Ext. Mustil No. 50 Min.	50//8min, 13min, 14min, 18min	1.35		
61.	Baliana Outer-1, Mustil No. 62 Min.	62//(8, 13, 14, 16, 17, 18 min)	3.29		
62.	Baliana Outer-2, Mustil No. 76 Min.	76//(13, 14, 17, 18 min)	1.15		
63.	Baliana Outer-3, Mustil No. 106 Min.	106//(8 min, 13 min)	0.71		

Serial Number	Name of colony	* Khasra Number/ kila number	Area (in acres)	Name of Corporation	Name of District
1	2	3	4	5	6
64.	Barsi Nagar Ext 1, JindChowk, Urban No. 4375,4376 min etc.	Urban No. (4375 min, 4376 min, 4408 min)	1.9		
65.	Barsi Nagar Ext 2, Jindchowk, Urban No. 1204,1205 min etc.	Urban No. (1204 min, 1205 min, 1335 min, 1337 min)	1.1		
66.	Barsi Nagar Ext. 3, Jind Chowk, Urban No. 3598,3599 min etc.	Urban No. (3598 min, 3599 min, 3606 min, 3607 min)	0.5		
67.	Barsi Nagar Ext. 4, Jind Chowk, Urban No. 1331, 1334 min etc.	Urban No. (1331 min, 1334 min, 3449 min, 3450 min, 3451 min, 3452 min, 3453 min, 3522 Min)	0.94		
68.	Basantvihar Ext 1. Mustil No. 72 Min. Snp Rd	72//(15 min, 16 min, 24 min, 25 Min)	1.8		
69.	BastiKutana Ext. 1, Mustil No. 39 Min.	39//17(4, 6, 7, 14 min)	3.04		
70.	BastiKutana Ext. 2, Mustil No. 38 & 39 Min.	38//(1, 10, 11, 20 min), 39//(6, 15, 16 min)	3.8		
71.	Bohar Outer Part 4, Mustil No. 179 Min.	179//11, (10, 18, 19, 20 min)	3.32		
72.	Bohar Outer Part 5, Mustil No. 159 , 178 Min etc.	159//(9, 12, 19, 22 min), 178//(2 min)	1.92		
73.	Bohar Outer Part 6, Mustil No. 159 , 160 Min etc.	159//(10min), 160/(6, 7 min)	2.9		
74.	Friends Colony Ext.1 Mustil NO. 280, 281 Min etc.	280//(15, 16, 17, 24 min), 281//(19, 20, 22 min), 302//(2, 9, 12, 19 min), 303//(4 min)	4.9		
75.	GarhiBohar Outer Part 2, Mustil No. 319 Min.	319//8 min, 9, 10 min, 12 min, 19 min	3		

Serial Number	Name of colony	* Khasra Number/ kila number	Area (in acres)	Name of Corporation	Name of District
1	2	3	4	5	6
76.	Harki Devi colony Ext. Mustil No. 132, 134 Min etc.	132//(21 min), 134//(5, 6, 15 min), 135//(1, 10 min)	2.73		
77.	Inder Nagar-1, Mustil No. 70 & 71 Min.	Sunaria Kalan 70// 9 min, 10 min, 11 min, 71// (6 min, 15 min)	1.47		
78.	Jasbir Colony Mustil 71, 72 Min etc.	71//2 min, 3, 8, 9 min, 12 min, 13, 14, 15 min, 17 min, 16 min, 17 min, 18, 19 min, 20 min, 21 min, 22 min, 25, 72// 20, 21, 77//1 min, 3, 8, 9 min, 10 min 11 min, 18 min, 19 min, 20 min, 21 min, 22 min, 23 min), 78// (1 min, 2 min, 3, 4, 5, 6, 7, 8 min, 9 min, 10 min, 13 min, 14 min, 15 min, 16 min, 17 min, 25 min)	29		
79.	Kanheli Outer part 1, Mustil No. 34, 35 Min etc.	34//(12, 19, 20, 21 min), 35//(16, 25 min)	2.85		
80.	Kanheli Outer Part 3, Mustil No. 53 Min etc.	53//(15 min)	1.06		
81.	Kabir colony Ext. 1, Mustil No. 60 Min.	60// 7 min, 13 min, 14 min	1.17		
82.	Kabir Colony Ext. 2, Mustil No. 53 min.	53//20 min, 21 min	1.1		
83.	Kabir Colony Ext. 3, Mustil No. 53 min	53// 12 min	0.5		
84.	Majra Colony Ex.t-1, Mustil No. 334, 344 Min etc.	344//5 (3, 4, 6, 7, 8 min), 345//(1, 10, 11 min)	4.18		
85.	New Janta colony Ext.-1, Urban No. 2364, 2365 Min etc.	Urban No. 2364, 2365, 2367 min, 2368 min 2358 min, 2359 min, 2362 min, 2363 min, 2369 min	9.1		
86.	New Janta Colony Ext.-2, Urban No. 2360, 2361 Min etc.	Urban No. (2360 min, 2361 min, 2362 min)	2.06		
87.	New Vijay Nagar Ext. 1, Mustil No. 17, 18 Min etc.	17// 21 min, 18// (7 min, 14 min, 15 min, 16 min, 17 min, 25, 37// 1 min	3.6		

Serial Number	Name of colony	* Khasra Number/ kila number	Area (in acres)	Name of Corporation	Name of District
1	2	3	4	5	6
88.	New Aggarsain Colony Ext.-1, Urban No. 2527 min.	Urban No. 2527 min	1.73		
89.	New Aggarsain Colony Ext.-2, Urban No. 2533 Min.	Urban No. 2533 min	0.45		
90.	Panchwati, Mustil No. 134 & 167 min	134// (18, 23 min), 167//6 (3, 4, 5, 7, 14, 15, 16 min)	6.86		
91.	Parvesh Nagar Ext. 1, Urban No. 6896, 6904 Min etc.	Urban No. (6896, 6904, 6905, 6906, 6913, 6914, 6915, 6916, 6933, 6934, 6947 min)	7.19		
92.	Pehrawar Outer Part-1, Mustil No. 62 Min etc.	62//(23, 24, 25 min)	1.19		
93.	Pehrawar Outer Part-2, Mustil No. 53 Min	53// (2 min, 3 min)	0.37		
94.	Rajendra colony Ext.-1, Mustil No. 54 Min	Kutana 54// (2 mins, 3 min)	0.27		
95.	Rajendra colony Ext.-2, Urban No. 2046, 2047 Min etc.	Urban No. (2046, 2047, 2048, 2049, 2051, 2061 min)	3.68		
96.	Rajiv Nagar Ext.1, Urban No. 6242, 6243 Min etc.	Urban No. (6242, 6243, 6251 min)	1.5		
97.	Rajiv Nagar Ext.2, Urban No. 6330, 6738 Min.	Urban No. (6330, 6738 min)	1.7		
98.	Rajendra Nagar Ext. Gohana Road. Urban No.6870,6871 Min etc.	Urban No. (6870 min, 6871 min, 6873 min, 6874 min, 6875 min, 6876 min, 7781 min)	8.76		
99.	Ram Nagar Ext.-1 Mustil No. 10,11 Min	10// 12, 17, 23, 24, 25 (13 min, 14 min, 16 min, 18 min, 19 min), 11// (20 min, 21 min, 22 min)	9.6		
100.	Ram Nagar Ext.-2 Mustil No. 22 Min	22// (4 min, 7 min)	0.7		
101.	Ram nagar Ext.-3 Mustil No. 20,21 Min	(20//(19, 20, 21, 22 min), 21//(16, 24, 25 min)	2.5		

Serial Number	Name of colony	* Khasra Number/ kila number	Area (in acres)	Name of Corporation	Name of District
1	2	3	4	5	6
102.	Rishi nagar Part 1, Mustil No. 10 & 25 Min	10// (16 min, 17 min, 25 min), 25// (5 min, 6 min)	2.5		
103.	Rishi nagar Ext. 2, Mustil No. 25.	25// (3 min, 4 min, 7 min)	1		
104.	Rishi nagar Ext. 3, Mustil No. 25 Min.	25//(11 min, 12 min, 13 min)	0.71		
105.	Sheetal Nagar Ext. 2 Mustil No. 42 & 43	42//(1, 2, 10, 11 min), 43//(5 min)	3.3		
106.	Sheetal Nagar Ext. 3 Mustil No. 43	43//(4, 7, 8, 14 min)	1.8		
107.	Shervihar Ext.-1 Mustil No. 55 Min	55//(2 min, 9 min)	0.7		
108.	Shervihar Ext.-2 Mustil No. 52 Min	52// (14 min, 17 min, 18 min)	1		
109.	Shervihar Ext.-3 Mustil No. 37 Min	37// (21 min, 22 min)	0.3		
110.	Shervihar Ext.-4 Mustil No. 52 Min	52//(2 min, 3 min, 8 min, 9 min)	0.32		
111.	Shiv Nagar Ext.-1 Urban No. 876,880 Min etc.	Urban No. (876, 880, 881, 882, 883 min)	3.6		
112.	Shiv Nagar Ext.- 2 Urban No. 805,806 Min	Urban NO. (805 min, 806 min)	0.69		
113.	Shiv Nagar Ext.- 3 Urban No. 1542, 1544 Min etc.	Urban No. 1542 min, 1544 min, 1545 min, 1546 min, 1564 min, 1565, 1566, 1567, 1568 min etc.	3.44		
114.	Sunaria Kalan Outer Part-1 Mustil No.91, 92 Min etc.	91//(25 min), 92//(21, 22 min), 109//(1, 2, 9, 10, 11, 12 min)	4.31		
115.	Sunaria Kalan Outer Part-3 Mustil No.62,63 Min etc.	62//16 (6, 15, 24, 25 min), 63//(10, 21 min) 76//(1 min), 77//(4, 5 min)	6.35		
116.	Sunaria Kalan Outer Part-4 Mustil No.94 Min	94// (19 min, 22 min, 23 min)	1.5		

Serial Number	Name of colony	* Khasra Number/ kila number	Area (in acres)	Name of Corporation	Name of District
1	2	3	4	5	6
117.	Sunaria Kalan Outer Part-5 Mustil No.107 Min	107//(23 min)	0.49		
118.	Sunaria Kalan Outer Part-6 Mustil No.76, 94 Min	76//(24 min), 94//(3, 4 min)	1.33		
119.	Sunaria Kalan Outer Part-7 Mustil No.78, 79 Min	78//9, 10, (11, 12 min), 79//(6 min)	4.36		
120.	Sunaria Khurd Outer Part-1 Mustil no. 18,19 Min etc.	18//(15, 16 min), 19//(11, 12, 18, 19, 20 min)	3.03		
121.	Sunaria Khurd Outer Part-3 Mustil no. 4, 18 min	4//(25 min), 18//(3, 4, 5, 7, 8 min)	2.47		
122.	Surya Nagar Ext.1 Singh pura road Urban NO.453,456 Min etc.	Urban No. (453, 456 min)	0.86		
123.	Surya Nagar Ext.2 Singh pura road Urban NO.451,452 Min etc.	Urban No. (451, 452, 453 min)	1.08		
124.	Tau Nagar Ext. Mustil 172, 173 Min etc.	172//3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 17, 18 (12, 19, 22, 23, 24, 25 min), 173//(10, 11, 12, 21 min, 200//(4, 5 min)	16.04		
125.	Vishal Nagar Ext.1, Mustil No. 70 Min.	70// (14 min, 15 min)	0.59		
126.	Vishal Nagar Ext. 2 Mustil No. 51, 61 min etc.	51//(16, 17, 18, 23, 24, 25 min), 61//(3, 4 min)	3.7		
127.	Area Opp. Dairy Complex Part 1 (Mustil No.27 Min)	27// 9, 3min, 8min, 12min, 13min	2.05		

Serial Number	Name of colony	* Khasra Number/ kila number	Area (in acres)	Name of Corporation	Name of District
1	2	3	4	5	6
128.	Area Opp. Dairy Complex Part 2 (Mustil No.27 Min)	27// 7min, 8min, 14min.	0.87		
129.	Bohar Outer Part 1-A (Mustil No.123 Min, 144 Min)	123// 22min, 23min 144// 2min, 3min, 4min, 7min, 8min	2.64		
130.	Bohar Outer Part 1-B (Mustil No. 144 Min, 145 Min)	144// 25min, 6min, 7min, 15min 145//8min, 11min, 12min, 13min, 18min, 19min	3.84		
131.	Bohar Outer Part-2 (Mustil No.156 Min, 181 Min, 191 Min)	156//13min, 14min, 15min, 16min, 17min, 18min, 23min 181//2min, 3min, 8min, 9min, 12min, 13min, 18min, 19min, 22min, 23 min 191//2min	9.5		
132.	Bohar Outer Part-3 (Mustil No.191 Min, 192 Min)	191// 1min, 2min, 9min 192//6, 12, 13, 18min, 20min, 5min, 7min, 8min, 9min, 11min, 14min, 15min, 19min, 21min	11.5		
133.	Friends Colony Ext 2-B (Mustil No. 301 Min, 302 Min)	301// 9min, 10min 302// 6min, 15min)	2.71		
134.	Garhi Bohar Outer Part 1-B (Mustil No.285 Min)	285// 6min, 7min, 14min, 15min	1.88		
135.	Garhi Bohar Outer Part 1-C (Mustil No.286 Min)	286//12, 19, 22, 9min, 10min, 11min,	4.27		
136.	Garhi Bohar Outer Part 1-D (Mustil No.298 Min)	298//4, 2min, 3min, 7min, 8min, 9min,	3.97		
137.	Garhi Bohar Outer Part 1-E (Mustil No.298 Min)	298// 13min, 14min, 17min, 18min	2.57		
138.	Kanheli Outer Part 2-A (Mustil No.43 Min)	43//5, 4min, 6min	1.69		

Serial Number	Name of colony	* Khasra Number/ kila number	Area (in acres)	Name of Corporation	Name of District
1	2	3	4	5	6
139.	Kanheli Outer Part 2-B (Mustil No.43 Min, 44 Min)	43// 15, 16min, 44// 11min, 19min, 20min, 22min	3.25		
140.	Kheri Sadh Outer Part 1-A (Mustil No.36 Min, 49 Min)	36//13, 14, 18, 23, 7min, 8min, 9min, 12min, 15min, 16min, 17min, 22min 49//3min, 4min, 5min)	7.83		
141.	Kheri Sadh Outer Part 1-B (Mustil No.49 Min)	49// 13min, 14min, 15min, 16min, 17min, 18min, 19min	3.58		
142.	Kheri Sadh Outer Part 1-C (Mustil No.49 Min, 67 Min)	49// 24min, 25min 67// 4, 3min, 5min, 6min, 7min	2.98		
143.	Kheri Sadh Outer Part-2 (Mustil No.65 Min, 66 Min)	65// 9min, 10min 66//7, 6min, 14min, 15min	5.47		
144.	Kheri Sadh Outer part-3 (Mustil No.50 Min, 65 Min)	50// 16min, 17min, 24min 65// 4min	2.25		
145.	Kheri Sadh Outer Part 4-A (Mustil No.34 Min)	34// 16min, 17min, 24min	1.24		
146.	Kheri Sadh Outer Part 4-B (Mustil No.35 Min)	35// 6, 5min, 7min	2.35		
147.	Sheetal Nagar Ext 1-A (Mustil No.41 Min, 42 Min)	41// 10min, 11min, 20min 42// 6min, 15min	1.09		

Serial Number	Name of colony	* Khasra Number/ kila number	Area (in acres)	Name of Corporation	Name of District
1	2	3	4	5	6
148.	Sheetal Nagar Ext.1-B (Mustil No.42 Min)	42// 7min, 14min	0.85		
149.	Sunaria Khurd Outer Part-2 (Mustil No.20 Min, 27 Min)	20// 7min, 13min, 14min, 15min, 17min, 18min, 23min, 24min 27// 2min, 3min, 4min	5.49		
150.	Sunarian Kalan Outer Part. 2-A (Mustil No.78 Min)	78// 14min, 15min, 16min, 17min, 18min, 19 min, 23min, 24min	2.81		
151.	Sunarian Kalan Outer Part-2-B (Mustil No.92 Min)	92//8min, 9min, 10min, 11min, 12min	1.76		
152.	Asthal Bohar Ext-5 Mustil No. 299, 300min, etc.	299// 11min, 19min, 20min, 22min 300//16min, 17min, 24min	2.72		
153.	Friends Colony Ext-5, Mustil No. 281, 282, 301min, etc.	281//13min, 14min, 15min, 16min. 282// 18min, 19min, 20min, 21min, 22min, 23min.	4.85		
154.	Friends Colony Ext-6, Mustil No. 280, 281min, etc.	281// 9min, 10min, 11min, 12min	0.91		
155.	Sarswati Vihar Part. 1	54//19min, 20min, 21min, 22min, 23min 59//1min, 2min, 3min, 9min, 10min, 12min. 58//5min	4.380	Municipal Corporation Sonepat	Sonepat
156.	Sarswati Vihar Part. 1	53//19min, 20min, 21min, 22min 54//16min, 25min 59//5min, 6min 60//1min, 2min, 60min	6.01		
157.	Laxmi Nagar	17//23min, 24min, 25min 27//3, 4min, 5min, 6, 7min, 8min, 12min, 13min, 14min, 15, 16, 17min, 18min, 19min, 20min	10.85		

Serial Number	Name of colony	* Khasra Number/ kila number	Area (in acres)	Name of Corporation	Name of District
1	2	3	4	5	6
158.	Pargati Nagar	784min, 785min, 786min, 787min, 788min, 789min, 815min, 816min, 817min, 818min, 819min	4.29		
159.	Mayur Vihar	2//(22min, 23min, 24min, 25min), 11//(6min, 15min), 10//(1min, 2min, 3min, 4min, 5min, 6min, 7min, 8min, 9min, 10min, 11min, 12min, 13min, 14min, 15min, 16min, 17min, 18min, 19min, 22min, 23min, 24min, 25min), 13//(2min, 3min, 4min, 5min, 6min, 7min, 8min, 9min, 12min, 13min, 14min, 15min, 18min, 19min, 22min, 23min, 24min), 14// 3min, 4, 5, 6min, 7min, 8min, 15min 15//1, 2, 3min, 4min, 5min, 6min, 7min, 8min, 9min, 10, 11min, 12min, 13min, 14min, 15min 8//17min, 18min, 19min, 20min, 21, 22, 23, 24min, 25min 9//1min, 2min, 6min, 7min, 8min, 9, 10, 11min, 12min, 13, 14, 15min, 16, 17, 18min, 19min, 20min, 23min, 24min 10//5min, 6min, 15min 7//21min 16//1min, 10min.	38.87		
160.	Hanuman Nagar	1457min, 1467min, 1452min, 1148min, 1449min	3.63		
161.	Shanti Vihar Extn.	7//6min, 7min, 13min, 14min and 15min. 6//21min 11//1min, 7//25min	Part-I: 0.98 Part-II: 1.44		
162.	Kamboj Colony Ward No 1	84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111	7.56	Municipal Corporation Yamuna Nagar	Yamuna Nagar
163.	Usha Colony Ward No 1	61//16 min, 25 min, 59//20 min, 21 min, 22 min, 23 min, 67//1 min, 2 min	2.53		
164.	Baba Colony Ward No 3	31//24 min, 25 min 38//4min, 7 min, 30 min, 31 min, 14min, 5	3.16		

Serial Number	Name of colony	* Khasra Number/ kila number	Area (in acres)	Name of Corporation	Name of District
1	2	3	4	5	6
165.	Inderpuram Colony	74//37 min, 38 min, 39 min, 40 min, 46 min 85//29 min, 49/1 min, 49/2 min	4.38		
166.	Colony Behind Uppal Mall Ward no	101//45 min, 46 min, 48 min, 50 min, 111// 30 min, 31 min, 47	4.05		
167.	Pyareji ka Mandir, Opp. Samshan Ghat, Ward No 5	101//29 min, 34 min, 33 min, 31/2 min, 30 min, 40min 102//34min	6.18		
168.	Gobindgarh Farm Ward No 5	123//7 min, 13 min, 14 min, 15 min, 124//11min, 20 min, 21 min	2.75		
169.	Green Vihar Part II on Chaneti Road Ward No 5	77// 16 min, 17 min, 78//21, 22 min, 81//1 min, 2 min 24, 25	3.64		
170.	Maa Durgeshwari Colony Ward No 5	28//1 min, 2 min, 22// 19 min, 21 min, 22 min, 23 min	4.6		
171.	Saini Farm Ward No 5	4//1/1 min, 1/2, 2 min, 9 min	1.434		
172.	Shivpuri Jagadhri Colony Ward No 5	123//5 min, 6 min, 124//1 min, 3 min, 4 min, 11 min 7, 8, 9, 10,	4.87		
173.	Green Vihar Part III Ward No 5	49//11 min, 20 min, 21 min 50//14 min, 17 min, 24 min, 25 min 15, 16	1.94		
174.	Ghari Mundo Tapriyan, Behind Navneet Jain Hospital	88//1 min, 88/2 min, 90 min, 91 min	1.05		
175.	Jain Avenue Ward No 6	302/2, 303/3 min, 308/1 min, 308/2 min	4.03		
176.	Bank Colony Ward No 7	17//18 min, 22 min, 23 min 27//2, 3 min, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 min, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 32//2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	18.74		
177.	Tyagi Garden Colony Ward No 7	280 min, 290 min, 320 min, 332 min, 351 min, 353 min, 354 min, 331 min, 350 min, 330 min, 288 min, 289, 283, 282	4.85		

Serial Number	Name of colony	* Khasra Number/ kila number	Area (in acres)	Name of Corporation	Name of District
1	2	3	4	5	6
178.	Vishal Nagar Colony Ward No. 7	273 min, 282 min, 276 min, 278, 259, 258 min, 252, 261, 273, 277, 275, 283, 271, 272, 273, 266HT, 270, 279 min	6.50		
179.	Motibag Colony Ward No 7	292 min, 293 min, 294 min, 295, 296 min, 297 min, 298-307, 308 min, 317, 318, 320 min, 321 min, 315, 316 min, 248 min	11.32		
180.	Maya Puri, Tejli Ward No. 11	1016 min, 1017 min, 1018 min, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025 min	5.57		
181.	Shanti Colony Ward No. 11	15// 16 min, 25 min, 16//2 min, 3 min, 7, 8, 9 min, 12 min, 13, 14, 29, 30, 31, 15, 16, 17, 18, 19, 20 min, 21, 22, 23, 24, 25 22// 10 min, 12 min, 13 min, 8 min 6 min, 1/1 min, 2/2 min 23// 1, 2, 3, 4, 5 min, 6/2 min, 6/1 min, 7 min, 8 min, 9 min, 10 min 24// 5 min, 6/1 min	23.10		
182.	Sunder Nagar Colony Ward No. 11	996 min, 994 min, 993 min, 990, 999 min, 989, 1029 min,	2.20		
183.	Sunder Vihar Phase 1	818 min, 819 min, 821 min, 822 min, 823 min,	2.85		
184.	Gadhauli Majri Colony Ward 12	27// 19 min 56 min, 117, 118, 119	0.96		
185.	Roop Nagar Ward No 12	2//22 min, 5//19, 20, 21, 22, 11 min S, 12min, 6//2, 3, 4 min, 7 min, 8, 9, 12, 13, 14 min, 15 min, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 13//3, 4, 5, 6, 7 min, 8 min, 9 min, 13 min, 14 min, 15 min, 16 min, 14//1, 2 min, 10 min, 11 min, 20 min	26.55		
186.	Jammu Colony Ward No. 14	21//2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 min, 21 min, 22 min, 23, 24, 25 14//22min, 23min, 24min, 25min	18.20		
187.	Joriya Out Side Lal Dora Ward No. 17	21//27 min, 35 min, 26 min, 11 min, 12/2 min, 12/1 min, 9/1min, 2, min, 32 min, 55 min, 3/2min	1.40		
188.	Shiv Nagar Ward No. 17	19//10 min, 11 min 20//2 min, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 min, 12 min, 13, 14, 15, 16 min, 17 min, 18 min, 19 min, 39//22 min, 23 min, 45//2, 3, 4, 9 min, 7/2, 12 min, 13/1 min, 19 min, 7 min, 8 min	12.14		

Serial Number	Name of colony	* Khasra Number/ kila number	Area (in acres)	Name of Corporation	Name of District
1	2	3	4	5	6
189.	Luxmi Nagar colony Ward No. 17	22//3 min, 4, 5 min, 6 min, 7, 8, 9 min, 12/1, 13, 14, 15, 16 min, 17 min, 18 min, 19, 23 min, 24 min, 25 min, 20//16 min, 17 min, 23 min, 24, 25 min	12.6		
190.	Jawarhar Nagar Ward No. 18	136 min, 137 min, 138 min, 139, 140, 141, 143, 151, 149, 153, 161, 162, 160, 163, 164, 165, 166, 157, 158, 159, 154, 155, 156, 173 min, 174, 167, 168, 169 min, 172 min	19.73		
191.	Nanak Nagar Ward No 18	7//20 min, 21 min 8//16 min, 17 min, 18 min, 22 min, 23, 24, 25 14//1/1 min, 2/1 min, 2/3 min, 3, 4, 5, 6, 7, 8 min, 9 min, 13/1 min, 14 min, 16 min 15//11, 12 min, 19 min, 20	14.59		
192.	Arya Nagar Ward No. 20	10//23 min, 24, 25 min, 21//3min, 4 min, 5 min, 6min, 7, 8/1, 8/2, 14, 15, 9 min, 10, 11, 12, 20, 19// min, 19/2min	8.78		
193.	Ashok Vihar Ward No. 20	27//11 min, 12 min, 19 min, 21 min, 22 min 26//14 min, 15 min, 32//2, 9 min, 10, 11 min, 12 min 33//6/4, 7/2 min, 6/2 min, 15/2 min, 14/2 min, 15 min 26, 27	11.10		
194.	Booter Vihar Ward No. 20	25//16 min, 25 min, 26//20/1 min, 20/2 min, 21/1, 21/2, 19 min, 22 min, 34//4 min, 5, 6, 7 min, 14 min, 15 min 33//1, 2 min, 9 min, 10, 11, 12 min.	9.96		
195.	Mayapuri Ward 20	17//2 min, 3 min, 4 min, 7 min, 8, 9, 12, 13, 14 min, 19 min, 18 min	6.95		
196.	Mandebbar Out sideLal Dora Ward 18	311min, 312min, 310min, 291min, 290min, 271min, 270min, 273, 274, 276, 268min, 269min, 289min, 275, 313min, 302min.	5.24		
197.	Sarda Colony Ward 12	10//14min, 15min, 16min, 17min, 24min, 25min	0.99		
198.	Kailash Nagar Colony Ward 12	18// 4/1min, 11// 24min, 25min	1.05		

Serial Number	Name of colony	* Khasra Number/ kila number	Area (in acres)	Name of Corporation	Name of District
1	2	3	4	5	6
199.	Rajdhani Colony Ward No. 11	817min, 825min, 826min, 827, 816min, 828min, 829min	5.96		
200.	Hanuman Colony Ward No 11	17//4min, 7min	0.76		
201.	Rajiv Garden Colony Ward No 7	16//21min, 22min, 23min, 24min, 25min 15//21min, 22min 27//5min, 6min 28//1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9min, 10min, 12min, 13min, 14min, 15, 16min, 17min 29//11min, 12min, 20min, 17//25min	19.60		
202.	New Jain Nagar Ward No 6	105/1min, 106/1min, 106/2min, 106/3min	1.78		
203.	Bhagirath Colony	101// 27, 28, 29min, 39min, 40min, 41/1min, 42min, 43min, 44min, 45min	3.65		

* The Boundaries of the above area/ colony are indicated in the approved layout plan submitted by the concerned municipalities and duly recommended by the Divisional Commissioners concerned.

The plots falling under influence zone of high tension line or gas/ petroleum pipe line / alignment of proposed road shown in layout plan and Development Plan shall not be considered under this notification till removal of high tension line and revision in Development Plan.

Commercial, industrial, institutional and uses other than residential shall not be considered under this notification till seeking permission for residential use.

ANAND M. SHARAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.